

प्रेस नोट दिनांक- 11.07.2021

थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

थाना फरीदपुर #Bareillypolice द्वारा अफीम की तस्करी करने वाले तीन अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलों 850 ग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 60 लाख रुपये) बरामद।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के आदेशानुसार मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के मार्गदर्शन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी फरीदपुर महोदय के कुशल नेतृत्व में फरीदपुर पुलिस टीम द्वारा अफीम की तस्करी करने वाले तीन अपराधियों को अफीम सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 11.07.2021 को थाना हाजा से पुलिस टीम गश्त व तलाश वांछित अपराधी गण में रवाना होकर थाना क्षेत्र में मामूर थी। पुलिस टीम जब गश्त करते मोहल्ला शान्तिनगर सैंट मेरी स्कूल गेट के सामने पहुंचे तो गौसगंज की तरफ से आते 03 व्यक्ति आते दिखाया दिये जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे शक होने पर हम पुलिस वालों ने इन तीनों व्यक्तियों को टोका तो तीनों व्यक्ति एक दम भागने का प्रयास करने लगे पुलिस टीम द्वारा घेर घोटकर दविश देकर करबला को जाने वाले मार्ग पर गौसगंज वाली सडक के करीब 70 कदम कस्बा व थाना फरीदपुर पर आवश्यक बल प्रयोग कर तीनों व्यक्तियों को मौके पर ही समय करीब प्रातः 06.15 बजे पकड लिया। पकडे जाने पर नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी तो पकडे अपराधियों से भारी मात्रा में **(01 किलो 850 ग्राम)** अफीम बरामद हुयी। नियमानुसार इन पकडे अफीम तस्करो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत किये गये।

#### अफीम तस्करो के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण

- 1-मु0अ0सं0 354/21 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट बनाम बेजनाथ पुत्र तुलसी महतो निवासी ग्राम हेवई थाना केरेडारी जिला हजारी बाग झारखण्ड
- 2-मु0अ0सं0 355/21 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट बनाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र टुक्कर महतो निवासी हेवई थाना केरेडारी जिला हजारी बाग झारखण्ड
- 3-मु0 अ0 सं0 356/21 दारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट बनाम इरशाद पुत्र शमशुद्दीन निवासी शिवपुरी थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली

#### घटनास्थल:-

करबला को जाने वाले मार्ग पर गौसगंज वाली सडक के करीब 70 कदम कस्बा व थाना फरीदपुर

#### बरामदगी का विवरण:-

- 1-अभियुक्त गणों के कब्जे से कुल 01 किलों 850 ग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 60 लाख) बरामद होना।

#### गिरफ्तार अभियुक्त गणों का विवरण-

- 1- बेजनाथ पुत्र तुलसी महतो निवासी ग्राम हेवई थाना केरेडारी जिला हजारी बाग झारखण्ड।
- 2- सुरेन्द्र कुमार पुत्र टुक्कर महतो निवासी हेवई थाना केरेडारी जिला हजारी बाग झारखण्ड।
- 3- इरशाद पुत्र शमशुद्दीन निवासी शिवपुरी थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री राजकुमार थाना फरीदपुर जिला बरेली।
- 2- हे0का0 834 अर्जुन सिंह थाना फरीदपुर जिला बरेली।
- 3-कां0 1689 मोहित कुमार थाना फरीदपुर, बरेली।
- 4-कां0 85 शिव कुमार थाना फरीदपुर बरेली।
- 5-कां0 2108 वासु थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

(विजय प्रताप सिंह)  
प्रभारी निरीक्षक  
कोतवाली फरीदपुर, बरेली।